

CLASS NOTES

Class: सातवीं

Topic: वचन

Subject: हिंदी व्याकरण

हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखें।

प्रश्न 1. वचन किसे कहते हैं?

उत्तर- शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द, वचन कहलाते हैं।

उदाहरण -	एकवचन	बहुवचन
	भाई	भाइयों
	बच्चा	बच्चे
	केला	केले

प्रश्न 2 वचन कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर- वचन दो प्रकार के होते हैं - एकवचन और बहुवचन।

प्रश्न 3 दो ऐसे शब्द बताइए जो सदा एकवचन के रूप में प्रयोग होते हैं?

उत्तर - सदा एकवचन के रूप में प्रयोग होने वाले दो शब्द हैं -आकाश, जनता।

आइए अब लिखें

प्रश्न 1 निम्नलिखित रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए-

क) पेड़ से पीली पत्ती गिर गई।

उत्तर- पेड़ से पीली पत्तियाँ गिर गईं।

ख) सर्दी की छुट्टी दस दिनों की है।

उत्तर- सर्दी की छुट्टियाँ दस दिनों की हैं।

ग) बिल्ली को देखते ही चुहिया भाग गई।

उत्तर- बिल्लियों को देखते ही चुहियाँ भाग गईं ।

घ) मैदान में गौ चर रही है ।

उत्तर- मैदानों में गौएँ चर रही हैं ।

ड) रीना ने नई चुनरी खरीदी ।

उत्तर - रीना ने नई चुनरियाँ खरीदीं ।

च) आकाश में पक्षीवृंद उड़ रहे हैं ।

उत्तर- आकाश में पक्षी उड़ रहा है ।

प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए -

क) लुटिया - लुटियाँ

ख) मंत्री - मंत्रीगण

ग) वस्तुएँ - वस्तु

घ) आप - आपलोग

ड) मक्खियाँ - मक्खी

च) हमलोग - हम

छ) कुर्ता - कुर्ते

ज) गन्ने - गन्ना

झ) रातें - रात

ञ) खटिया - खटियाँ

प्रश्न 3 निम्नलिखित वाक्यों के वचन बताइए-

क) 10 मीटर कपड़े में अनेक कमीजें सिलवाईं ।

उत्तर- बहुवचन

ख) परीक्षा का अच्छा फल मिला ।

उत्तर - एकवचन

ग) तोता मिर्च खाता है ।

उत्तर - एकवचन

घ) पर्वतों से झरने बह रहे थे ।

उत्तर - बहुवचन

ड) मैंने तालाब से जिंदा मछली पकड़ी ।

उत्तर - एकवचन

च) बकरियाँ झुंड में चरती हैं ।

उत्तर - बहुवचन

प्रश्न 4 निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए -

क) भारत में छह ऋतुएँ होती हैं । (ऋतु, ऋतुएँ)

ख) हमें अपने गुरु का आदर करना चाहिए । (गुरु, गुरुजन)

ग) तूफान से पेड़ की डालियाँ टूट गईं । (डाली, डालियाँ)

घ) सरकार ने गाँव में इस साल पाठशाला खोली । (पाठशाला, पाठशालाएँ)

ड) लड़कियाँ भाग रही हैं । (लड़की, लड़कियाँ)

च) कविगण कविताएँ सुना रहे हैं । (कवि, कविगण)

प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि इनका वचन स्पष्ट हो जाए-

इस प्रश्न के उत्तर छात्र अपनी व्याकरण पुस्तक में स्वयं लिखें ।

प्रश्न 6 सही विकल्प का चुनाव कीजिए- (केवल अभ्यास के लिए)

प्रश्न- शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे कहते हैं-

क) लिंग

ख) वचन

ग) कारक

घ) काल

प्रश्न- हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं-

- क) दो
- ख) तीन
- ग) चार
- घ) पाँच

प्रश्न- लोग, समाचार, प्राण, दाम यह शब्द नित्य किस वचन में होते हैं ?

- क) नित्य एकवचन
- ख) नित्य बहुवचन
- ग) सदैव दोनों वचनों में
- घ) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न- मैंने हस्ताक्षर कर दिए। इस वाक्य में **हस्ताक्षर** किस वचन में है?

- क) एकवचन में
- ख) बहुवचन में
- ग) एकवचन और बहुवचन दोनों में
- घ) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न- मेरे आँसू निकल गए। यहाँ 'आँसू' शब्द का प्रयोग किस वचन में है-

- क एकवचन में
- ख बहुवचन में
- ग दोनों वचनों में
- घ किसी में नहीं

प्रश्न- 'नदी' का बहुवचन किस विकल्प में सही लिखा है-

- क नदियों
- ख नदियो

ग नदीयो

घ नद्यो

प्रश्न- 'पत्नी' का बहुवचन है?

क पत्ते

ख पत्तिया

ग पत्तियों

घ पत्तियाँ

ज्ञातव्य उपर्युक्त लेखन सामग्री घर पर तैयार की गई है ।